



11.10.2020

प्रेस नोट

थाना सीपरी बाजार अंतर्गत दुराचार करने एवं पैसे छीनने की घटना में सम्मिलित प्रकाश में आये सभी 08 आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री दिनेश कुमार पी महोदय के कुशल निर्देशन व पुलिस अधीक्षक नगर श्री विवेक त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजेश सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सीपरी बाजार , एस.ओ.जी. मय सर्विलांस टीम व अन्य गठित 04 टीमों द्वारा थाना सीपरी बाजार अंतर्गत दुराचार करने एवं पैसे छीनने की घटना घटित में संलित 8 घण्टे के अन्दर अभियोग में प्रकाश में आये सभी 08 आरोपियों को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण:-

आज दिनांक 11.10.2020 को थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी पर मु0अ0स0 590/2020 अन्तर्गत धारा 120बी /376डी/395/386/323 भा0द0वि0 व धारा 66 आईटी एक्ट एवं ¾ पाक्सो एक्ट 2012 पंजीकृत हुआ। पीड़िता द्वारा एक अभियुक्त भरत तथा 10-15 अज्ञात लड़को को आरोपित किया गया। पीड़िता ने उसके साथ एक लड़के द्वारा दुराचार करने तथा बाकी सभी के बाहर खड़े होने का आरोप लगाया है। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके 3000 रूपये भी छीने गये।

श्रीमान जिलाधिकारी, जनपद झाँसी द्वारा पीड़िता को विशेषज्ञ द्वारा मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किये जाने के प्रबन्ध कराये गये। उनके द्वारा अभियोग के फास्ट ट्रैक कोर्ट में शीघ्र विचारण एवं अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी नगर एवं प्रभारी निरीक्षक सीपरी बाजार को निर्देशित किया गया। तथा यह भी निर्देश दिये गये कि अभियोग में आरोप पत्र शीघ्र-अतिशीघ्र प्रेषित किया जाये।

घटना में संलित गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1- रोहित कुमार सैनी पुत्र हरिकान्त सैनी नि0 कुलपहाड़ थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा, उम्र 22 वर्ष- गिरफ्तार
- 2- भरत कुमार कुशवाहा पुत्र लल्ला कुशवाहा नि0 छानी कला थाना कबरई जिला महोबा, उम्र 19 वर्ष - गिरफ्तार
- 3- शैलैन्द्र नाथ पाठक पुत्र हरिनाथ सिंह नि0 पाठकपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, उम्र 19 वर्ष - गिरफ्तार
- 4- मयंक शिवहरे पुत्र धीरज कुमार नि0खिल्लावारी थाना टहरौली जनपद झाँसी, उम्र 22 वर्ष - गिरफ्तार
- 5- विपिन तिवारी पुत्र विनय तिवारी नि0 दामोदरपुर उर्फ तिवारीपुर थाना थरवई जिला प्रयागराज, उम्र 24 वर्ष - गिरफ्तार
- 6- मोनू पार्या पुत्र हरिदास पार्या नि0 मोहल्ला रौनयापुरा रानीपुर थाना मऊरानीपुर जिला झाँसी, उम्र 20 वर्ष - गिरफ्तार
- 7- धर्मेन्द्र सेन पुत्र रमेश सेन नि0 रानीपुर थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी, उम्र 19 वर्ष – गिरफ्तार
- 8- संजय कुशवाहा पुत्र अरविन्द कुमार नि0 मोड़ारी कुलपहाड़ थाना कुलपहाड़ जिला महोबा, उम्र 20 वर्ष